



Long-Term Care Home Update

Community Newsletter



नवंबर 2021

## नवंबर में निर्माण प्रगति

पिछली गर्मियों में, सरकार ने त्वरित निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करके Ajax Pickering Hospital के बगल में एक नया दीर्घकालिक देखभाल होम बनाने के लिए Lakeridge Health और Infrastructure Ontario के साथ एक सहयोगी साझेदारी की घोषणा की थी। PCL Construction के कार्य दलों ने जनवरी 2021 में होम के लिए नींव खोदनी शुरू की थी। केवल 11 महीने बाद कार्यदल होम के अंदरूनी हिस्से को फिनिशिंग दे रहे हैं, जिसमें झड़वालिग, फर्श डालना और पुताई शामिल है। पूरे होम में फिनिशिंग पर ध्यान केंद्रित किए जाना जारी है और छह मंजिलों में से दो मंजिलें अब लगभग बन कर पूरी हो चुकी हैं। कार्यस्थल पर प्रतिदिन लगभग 400 कर्मचारियों के होने से, हर दो हफ्ते में एक मंजिल बन कर पूरी होने की संभावना है।

सबसे हाल में, होम की दूसरी मंजिल बन कर पूरी हुई है, जिस में एक एकदम नया फर्नीचर, लाइट, और चालू हालत में बाथरूम समेत निवासी कक्ष शामिल है।

हम 2022 के लिए बेहद उत्साहित हैं जब निवासी घर में रहने के लिए आएंगे और हर कमरे को अपनी कलाकारी, अपने परिवार की फोटोस और अपनी प्रिय चीजों से जीवंत कर देंगे।

दो एलेवेटर भी उपयुक्त प्रमाणन के साथ लग चुके हैं और काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों एलेवेटर पूरी तरह से काम कर रहे हैं और निर्माण दल उपकरणों और संसाधनों को ऊपर-नीचे ले जाने के लिए एलेवेटर का प्रयोग कर पा रहे हैं।

घर के बाहर, शायद हाल में हुए कुछ बदलावों पर आपका ध्यान गया हो। इमारत के बाहर लगे हुए मचान और दोनों क्रेनों को कार्यस्थल से हटा दिया गया है।

साइडिंग लगाने का काम पूरा होने जा रहा है और अब होम सफेद, नारंगी और भूरे रंग का हो गया है। सड़कों का नेटवर्क भी पूरा होने वाला है और लैंडस्केपिंग का भी काम चालू है। प्रतिदिन इमारत निर्माण स्थल ना लग कर थोड़ी और होम जैसे लगने लगती है। Lakeridge Health की टीम 320 भावी निवासियों के होम में आकर रहने की तैयारियां करने में जुटी हुई है!



दीर्घ-कालिक देखभाल होम के पूर्व की ओर का एक दृश्य (6 नवंबर 2021)



## आपके लिए होम के अंदर का पहला दृश्य



होम की दूसरी मंज़िल पर एक मॉक-अप (दिखावटी मॉडल) निवासी कक्ष



मॉक-अप (दिखावटी मॉडल) निवासी कक्ष के साथ लगे व्यक्तिगत बाथरूम का एक दृश्य

## दीर्घ-कालिक देखभाल होम के नाम के बारे में ताज़ा समाचार

हम Durham Region और उसके बाहर के उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इस फॉल की शुरुआत में दीर्घ-कालिक देखभाल होम के सामुदायिक नामकरण सर्वे में भाग लिया था। सर्वे की प्रतिक्रियाओं की जितनी संख्या हमें मिली है, वह नामकरण के निर्णय के महत्व को दर्शाती है और आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम ऐसा नाम विकसित करने और चुनने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे समुदाय के सर्वोत्तम गुणों का प्रतिनिधित्व करता हो। एक बार फिर से, भाग लेने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। हम शीघ्र ही चयनित नाम को समुदाय के साथ साझा करने की आशा करते हैं।

## Ajax Pickering Hospital में आगंतुक पार्किंग

Ajax Pickering Hospital के बगल में निर्मित किए जा रहे नए पार्किंग गराज का काम तीव्र गति से चल रहा है और अगले साल तक पूरा होने के लिए फिलहाल निर्धारित समय पर चल रहा है। इसे ट्रैक पर रखने के लिए, पार्किंग गैरेज साइट पर क्रेन लगाई गई हैं और इसके परिणामस्वरूप, हम Ajax Pickering Hospital के पार्किंग स्थल पर कुछ अस्थायी क्षमता के मुद्दों का सामना कर रहे हैं।

हम आस-पास के समुदाय और आगंतुकों से इस व्यवधान के कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए क्षमा मांगते हैं। हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता सर्वोच्च प्राथमिकता सभी मरीजों, आगंतुकों और देखभाल में आवश्यक साझेदारों के लिए सुरक्षित, समान और सुलभ पार्किंग प्रदान करना है। कम पार्किंग स्थान के कारण, हम अपने सभी मरीजों को याद दिलाना चाहते हैं कि कृपया पहले से योजना बनाएं और पार्किंग स्थल का ढूँढने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय ले कर चले। इस से यह सुनिश्चित होगा कि आप अपने निर्धारित समय पर अपॉइंटमेंट के लिए पहुँच पाएंगे। हम ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जो सार्वजनिक परिवहन से अस्पताल पहुँच सकते हैं या जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति अपॉइंटमेंट के लिए अस्पताल तक छोड़ के जा सकता है, कृपया ड्राइविंग की जगह ये विकल्प भी ध्यान में रख कर चले।

गराज के पूरा होने पर हमारे पास तकरीबन 500 पार्किंग स्थल होने की संभावना है, जिसमें अस्पताल और दीर्घ-कालिक देखभाल मरीजों और निवासियों, आगंतुकों और स्टाफ के लिए समर्पित 200 और नए पार्किंग स्थल शामिल होंगे। एक बार फिर से हम इस समय के दौरान आपकी उदारता और धीरज के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं और Ajax Pickering Hospital को समुदाय द्वारा दिए गए लगातार सहयोग के लिए अपने आभार को दोबारा व्यक्त करना चाहते हैं।

## हॉलिडे सीजन की तरफ बढ़ते हुए

कार्य गति बनाए रखने और होम को सही समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए पूरे हॉलिडे सीजन के दौरान भी कार्यदल होम पर काम करते रहेंगे। Lakeridge Health, Durham समुदाय के लिए इस बहुत महत्वपूर्ण परियोजना के प्रति समर्पित कड़ी मेहनत करने वाले PCL के कर्मचारियों का आभार मानता है और धन्यवाद देना चाहता है।

## संपर्क में रहें

दीर्घ-कालिक देखभाल होम के बारे में आपकी प्रतिक्रिया और प्रश्न Lakeridge Health की टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप होम के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया 905-576-8711, एक्सटेंशन 34167 पर कॉल करें, या किसी भी समय [AjaxLTC@lh.ca](mailto:AjaxLTC@lh.ca) पर ईमेल करें। जारी ताज़ा समाचार क लिए आप हमारी वेबसाइट [www.lh.ca](http://www.lh.ca) पर भी जा सकते हैं या [Twitter](#) और [Facebook](#) पर Lakeridge Health को फॉलो कर सकते हैं।